

#shahjahanpurpol

प्रेस नोट दिनांक-28.10.2022

थाना कांट पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी,

साहसिक पुलिस मुठभेड मे शातिर लुटेरा गिरफ्तार, चोरी की मोटरसाइकिल व एक अदद तमंचा 315 बोर मय

02 कारतूस जिन्दा व एक खोखा कारतूस बरामद ।

श्री एस. आनन्द, पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे प्रभावी अभियान के क्रम मे श्री संजय कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन व श्री अमित चौरासिया क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण में थाना कांट पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई ।

दिनांक 28.10.22 की प्रातः 05.30 बजे प्रभारी निरीक्षक थाना कांट श्री धीरेन्द्र सिंह चौहान के नेतृत्व में थाना कांट पुलिस टीम थाना क्षेत्र में रेख शांति व्यवस्था व चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन व रोक थाम जुर्म जरायम मे मामूर थी कि मुखबिर ने सूचना दी कि एक लुटेरा मदनापुर की ओर से चोरी की मोटर साइकिल लेकर कांट की ओर आ रहा है । सूचना पर थाना कांट पुलिस जिन्दों वाली पुलिया पहुचे तो एक व्यक्ति मदनापुर की ओर से मोटर साइकिल से आता दिखाई दिया जिसे रुकने का इशारा किया तो वह व्यक्ति पुलिस वालो को देख कर भागने लगा तथा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया जिसमे पुलिस टीम बाल-बाल बची । पुलिस द्वारा अदम्य साहस व शौर्य का परिचय देते हुए घेर घोट कर जिन्दो वाली पुलिया से गांव इन्देपुर की तरफ करीब 50 कदम की दूरी पर अभियुक्त को पकड लिया गया । अभियुक्त के कब्जे से एक अदद मोटर साइकिल हीरो स्पलेण्डर रंग काला बिना नम्बर व एक अदद तमंचा 315 बोर मय 2 कारतूस जिन्दा 315 बोर व एक खोखा कारतूस 315 बोर नाल मे फसा हुआ बरामद के साथ गिरफ्तार किया गया । इस सम्बन्ध मे थाना कांट पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त राहुल एक शातिर लुटेरा है जिस पर लूट, हत्या का प्रयास आदि के आधा दर्जन से ज्यादा अभियोग पंजीकृत है ।

गिरफ्तारी/ बरामदगी का दिनांक , समय व घटनास्थल –

दिनांक 28.10.2022 समय 05.30 बजे , जिन्दो वाली पुलिया से गांव इन्देपुर की तरफ करीब 50 कदम की दूरी

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. राहुल पुत्र लल्लन नि0ग्राम व थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर उम्र करीब 25 वर्ष

बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद चोरी की मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट
2. एक अदद तमंचा 315 बोर चालू हालत मे व दो जिन्दा कारतूस जिन्दा व एक कारतूस नाल मे फसा हुआ ।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ मे अभियुक्त ने बताया कि यह मोटर साइकिल मैने पिछले साल चोरी की थी। इस मोटर साइकिल को मै लूट तथा चोरी आदि मे प्रयोग कर मोटर साइकिल को अपने घर खडी कर लेता हूँ। मेरे पास इसके कोई कागजात नही है।

अपराधिक इतिहास:

1. मु0अ0सं0 074/2018 धारा 307 भादवि थाना मदनापुर बनाम राहुल पुत्र लल्लन उपरोक्त
2. मु0अ0सं0 075/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मदनापुर बनाम राहुल पुत्र लल्लन उपरोक्त
3. मु0अ0सं0 1290/2017 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना मदनापुर बनाम राहुल पुत्र लल्लन उपरोक्त
4. मु0अ0सं0 1698/2017 धारा 392/411 भादवि थाना मदनापुर बनाम राहुल पुत्र लल्लन उपरोक्त
5. मु0अ0सं0 0768/2020 धारा 392/411/506 भादवि थाना तिलहर बनाम राहुल पुत्र लल्लन उपरोक्त
6. मु0अ0सं0 064/2018 धारा 392/411 भादवि थाना जलालाबाद बनाम राहुल पुत्र लल्लन उपरोक्त
7. मु0अ0सं0 0226/2018 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी थाना जलालाबाद बनाम राहुल पुत्र लल्लन उपरोक्त

पंजीकृत अभियोग –

1. मु0अ0सं0 607/2022 धारा 307 भादवि बनाम राहुल पुत्र लल्लन उपरोक्त
2. मु0अ0सं0 608/2022 धारा 41/102 सीआरपीसी व 411 भादवि बनाम राहुल पुत्र लल्लन उपरोक्त
3. मु0अ0सं0 609/2022 धारा 3/25/27 भादवि बनाम राहुल पुत्र लल्लन उपरोक्त ।

विवरण गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम :-

1. निरी0 श्री विकास कुमार थाना कांट
2. उ0नि0 सुनील कुमार थाना कांट
3. हे0का0 143 विजय प्रताप सिंह थाना कांट
4. हे0का0 373 आमिर हसन थाना कांट
5. का0 05 धीरज कुमार थाना कांट
6. का0 570 दिनेश कुमार थाना कांट